

लिखित रूप में लिखें, जो उन वास्तविक स्थितियों के

सम्बन्ध में अधिकारी द्वारा दिए गए विवरों के साथ उत्तराधिकारी द्वारा उन वास्तविक स्थितियों के लिए लिखित रूप में लिखें।

*Clause 4:* This amendment (proposed originally in English) inserts a new clause 14A which provides that the Board may issue a certificate of registration to a person who has been granted a right under section 14(1) or 14(2) of the Act.

*Clause 4A:* This amendment (proposed originally in English) inserts a new clause 14A-A which provides that the Board may issue a certificate of registration to a person who has been granted a right under section 14(1) or 14(2) of the Act.

*Subclause (1)(a):* It is proposed to amend subclause 14(1)(a) of the Act by inserting the words “such form as may be specified by the Board” in place of the words “prescribed form”.

*Subclause (1)(b):* It is proposed to amend subclause 14(1)(b) of the Act by inserting the words “such form as may be specified by the Board” in place of the words “prescribed form”.

*Subclause (2):* It is proposed to amend subclause 14(2) of the Act by inserting the words “such form as may be specified by the Board” in place of the words “prescribed form”.

*Clause 14:* The Bill proposes to add a new subclause 14A to clause 14(1).

The relevant portion of subclause 14(1) as proposed to be inserted is as follows:

“14. (1) Any right under section 14(1) or 14(2) of the Act may be registered by the Board in such form as may be specified by the Board.”

*Clause 9:* This amendment, which replaces the words “prescribed form” with the words “such form as may be specified by the Board”, is consequential on subclause 13(3).

इस विभाग का नियम का अधिकारी द्वारा दिए गए विवरों के साथ उत्तराधिकारी द्वारा उन वास्तविक स्थितियों के लिए लिखित रूप में लिखें।

इस विभाग का नियम का अधिकारी द्वारा दिए गए विवरों के साथ उत्तराधिकारी द्वारा उन वास्तविक स्थितियों के लिए लिखित रूप में लिखें।

*Article 9:* Substitution of the words “form prescrite” by the words “en la forme prévue par la Commission”. Découle de la modification proposée au paragraphe 13(3).

Article 9. — Substitution aux mots «forme prescrite» des mots «en la forme prévue par la Commission». Découle de la modification proposée au paragraphe 13(3).

Article 9. — Substitution des mots «forme prescrite» par les mots «en la forme prévue par la Commission». Découle de la modification proposée au paragraphe 13(3).

Article 9. — Substitution des mots «forme prescrite» par les mots «en la forme prévue par la Commission». Découle de la modification proposée au paragraphe 13(3).

Article 9. — Substitution des mots «forme prescrite» par les mots «en la forme prévue par la Commission». Découle de la modification proposée au paragraphe 13(3).

Article 9. — Substitution des mots «forme prescrite» par les mots «en la forme prévue par la Commission». Découle de la modification proposée au paragraphe 13(3).

Article 9. — Substitution des mots «forme prescrite» par les mots «en la forme prévue par la Commission». Découle de la modification proposée au paragraphe 13(3).

Article 9. — Substitution des mots «forme prescrite» par les mots «en la forme prévue par la Commission». Découle de la modification proposée au paragraphe 13(3).

Article 9. — Substitution des mots «forme prescrite» par les mots «en la forme prévue par la Commission». Découle de la modification proposée au paragraphe 13(3).

Article 9. — Substitution des mots «forme prescrite» par les mots «en la forme prévue par la Commission». Découle de la modification proposée au paragraphe 13(3).

Article 9. — Substitution des mots «forme prescrite» par les mots «en la forme prévue par la Commission». Découle de la modification proposée au paragraphe 13(3).